



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 47) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

4 दिसम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-12/2011/1336—श्री बासुकीनाथ प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्फरपुर के जैतपुर शाखा नहर के वि0दू0-14.00 एवं तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर के तिरहुत मुख्य नहर के वि0दू0-722.00 पर हुए टुटान पर सूचना स-समय विभाग को नहीं दी गई। उक्त टुटान की सूचना विभाग को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। टुटान की सूचना विभाग को नहीं देने, टुटान को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं करने एवं उक्त कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने से संबंधित आरोपों के लिए श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक 105 दिनांक 30.1.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से कहा गया है कि जैतपुर शाखा नहर वि0दू0 14.00 का टुटान दिनांक 21.9.11 को हुआ एवं तिरहुत मुख्य नहर पर टुटान दिनांक 22.9.11 को हुआ। दिनांक 22.9.11 को सुबह में कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सूचना प्राप्त होते ही कार्य स्थल पर प्रस्थान करने/कैम्प कर 22.09.2011 को ही टुटान को दुरुस्त कराकर स्थल से ही दूरभाष एवं वेतार संवाद से मुख्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय को सूचित किया गया।

श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि

जैतपुर शाखा नहर का टूटान दिनांक 21.9.11 होने के बावजूद इसकी सूचना दिनांक 22.9.11 को दी गई। वर्णित स्थिति में श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने तथा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

1. एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद अधीक्षण अभियन्ता, को एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड देते हुए यह दण्डादेश उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

भरत झा,

सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 47-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>